

प्रेस नोट- दिनांक 04-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

ऑपरेशन प्रहार के तहत 03 अपराधी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दिनांक 04-01-2023 को गोवध, चोरी आदि के अपराध में संलिप्त 03 नफर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना खेसरहा, शोहरतगढ़ पर धारा (3) की उपधारी 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी ।

निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-

01-सोनू पासवान पुत्र संतराम पासवान निवासी कठमोरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर (उम्र 27 वर्ष)

02- रविन्द्र पासवान पुत्र राजाराम निवासी कठमोरवा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर (उम्र 21 वर्ष)

03-इन्द्रजीत गिरी उर्फ पप्पू गिरी पुत्र स्व0 गौरी गिरी निवासी इमिलिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर (उम्र 28 वर्ष)

प्रेस नोट दिनांक 04.01.2023 थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर,माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत” के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में गौरव सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज के नेतृत्व में आज दिनांक 04.01.2023 को वाद सं0 154/19 धारा 323,504 भादवि व वाद संख्या 334/2020 धारा 323,504 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण-

- 1.रामतीरथ पुत्र रामानन्द निवासी भानपुर रानी थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2.रामअजोरे यादव पुत्र रामअवध निवासी गजनीजोत थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01.प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02.आरक्षी आनन्द प्रिय भारती थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03.आरक्षी रोहित कुमार कृष्णा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04.आरक्षी रामनिवास यादव थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 04-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के आरोपी को 02 वर्ष के कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 04-01-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना कपिलवस्तु पर पंजीकृत मु0अ0सं0 87/2000 धारा 323,325,504,506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त जटाशंकर पुत्र दीनानाथ

साहनी निवासी हरनामपुर थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त जटाशंकर को माननीय न्यायाधीश मनीषा गुप्ता, सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, नौगढ़, सिद्धार्थनगर द्वारा 02 वर्ष के कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। दण्डित कराये जाने में अभियोजन अधिकारी कुशलपाल सिंह व न्यायालय पैरवीकार मुख्य आरक्षी सुभाष चन्द वर्मा थाना कपिलवस्तु का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 04.01.2023 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मोहाना पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में संतोष कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मोहाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 04.01.2023 को मोहाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 273/22 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना मोहाना से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

01-राजबहादुर यादव पुत्र गौरी शंकर सा0 पनेरा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. निरीक्षक संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
02. उ0नि0 विश्व प्रकाश शुक्ल थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
03. आरक्षी संजू विश्वकर्मा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 04-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थनगर पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 24 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 1, 45,140/-रु0 के राजस्व की प्राप्ति ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 384 वाहनों की नीलामी कर 54,40,160/-रु0 राजस्व प्राप्त किया गया

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया। ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया। सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक 04.01.2023 को सन्त कुमार, उप जिलाधिकारी(न्यायिक) सिद्धार्थनगर, अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर, बृजेश कुमार, आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना सिद्धार्थनगर में लम्बित माल मुकदमाती, एमवी एक्ट से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 24 वाहनों जिसमें 21 दोपहिया वाहन

(मालमुकदमाती- 16, एम0वी0 एक्ट में सीज – 05), 01 अदद मालमुकदमाती तीन पहिया वाहन टेम्पू , 02 अदद चार पहिया वाहन माल मुकदमाती की नीलामी थाना सिद्धार्थनगर परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी । जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 1,45,140/-रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ । जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा ।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, ढेबरुआ से 94 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन,खेसरहा से 13 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन थाना इटवा से 02 वाहन, शिवनगर डिडई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है। अब तक कुल 384 वाहनों की नीलामी से कुल 54,40,160/-रु0 राजस्व की प्राप्ति हुई है ।





सेवा भी सुरक्षा भी

महिला सशक्तिकरण /मिशन शक्ति/एंटीरोमियो चेकिंग अभियान के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारी द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता/ मिशन शक्ति अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 04.01.2023को देवनंदन उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज के निर्देशन में हेड कांस्टेबल राजेश यादव तथा महिला बीट पुलिस अधिकारी महिला हेड कांस्टेबल संगीता मौर्या महिला कांस्टेबल संगीता द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बा डुमरियागंज, में शिक्षा एवम सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया तथा महिलाओं, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति तथा महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई इसके साथ-साथ छात्राओं को निर्भीक होकर शिक्षित एवम् सक्षम बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।